

INTERMEDIATE EXAMINATION-2025**इन्टरमीडिएट परीक्षा-2025****(Annual / वार्षिक)****ACCOUNTANCY (ELECTIVE)****लेखाशास्त्र (ऐच्छिक)****I.Com.**

कुल प्रश्न : 100+30+8=138
Total Questions: 100+30+8=138

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

[Time : 3 Hours 15 Minutes]

विषय : 220**Subject Code: 220**

(पूर्णांक :100)

[Full Marks:100]

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश:**Instructions for the candidates:**

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
Candidates must enter his/her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.
5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खण्डों में विभाजित है - **खण्ड-अ** और **खण्ड-ब**।
*This Question booklet is divided into two sections-**Section-A** and **Section-B**.*
6. खंड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। यदि 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा।

प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को नीले/काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/नाखून आदि का प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

In section A there are 100 objective type questions out of which only 50 questions are to be answered. If more than 50 questions are answered, then only first 50 questions will be evaluated. Each question carries one mark. For answering these darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on the OMR Answer Sheet provided to you. Do not use whitener/liquid/blade nail etc. on OMR Answer sheet /otherwise the result will be treated invalid.

7. खंड-ब में, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जिनमें से प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किसी भी 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।

In section B, there are 30 sheet answer type questions, each carrying 2 marks, out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 long answer type questions, each carrying 5 marks, out of which any 4 questions are to be answered.

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड – अ / SECTION-A
वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिये गये हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित करें।

$$50 \times 1 = 50$$

Questions nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the OMR-Sheet.

$$50 \times 1 = 50$$

1. व्यय पर आय का अधिक होता है

- | | |
|----------|------------|
| (A) हानि | (B) आधिक्य |
| (C) नकद | (D) पूँजी |

Excess of income over expenses is

- | | |
|----------|-------------|
| (A) Loss | (B) Surplus |
| (C) Cash | (D) Capital |

2. निम्नलिखित में से कौन प्राप्त एवं भुगतान खाते की विशेषता है?

- | | |
|------------------|------------------|
| (A) उपार्जन आधार | (B) नकद आधार |
| (C) डेबिट आधार | (D) क्रेडिट आधार |

Which of the following is a feature of Receipt and Payment A/C?

- | | |
|-------------------|------------------|
| (A) Accrual basis | (B) Cash basis |
| (C) Debit basis | (D) Credit basis |

3. संस्था को प्राप्त वसीयत होती है

- | | |
|------------------|----------------------|
| (A) आगम प्राप्ति | (B) पूँजीगत प्राप्ति |
| (C) आय | (D) व्यय |

A Legacy received by an organisation is a:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (A) Revenue receipt | (B) Capital receipt |
|---------------------|---------------------|

(C) Income (D) Expense

4. साल के अंत में खेल के बचे हुए सामान के मूल्य को चिट्ठे में किस रूप में दिखाया जाता है ?

(A) आय (B) व्यय
(C) संपत्ति (D) दायित्व

The price of balance of sports equipments at the end of the year is shown in the balance sheet as

(A) Income (B) Expense
(C) Asset (D) Liability

5. निम्नलिखित में से किसको आय-व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है?

(A) दान (B) विशेष उद्देश्य के लिए दान
(C) वेतन (D) चंदा

Which of the following is not shown in the Income and Expenditure A/C

(A) Depreciation (B) Donation for specific purpose
(C) Salaries (D) Subscription

6. भवन के लिए प्राप्त दान को दर्शाया जाएगा

(A) आय में (B) दायित्व में
(C) संपत्ति में (D) खर्च में

The donation received for building will be shown as:

(A) Income (B) Liability
(C) Assets (D) Expense

7. आजीवन सदस्यता शुल्क को दर्शाया जाएगा:

(A) आगम प्राप्ति की तरह (B) पूँजीगत प्राप्ति की तरह
(C) ऋण की तरह (D) दायित्व की तरह

Life Membership fee will be shown as:

- (A) Revenue Receipt (B) Capital Receipt
(C) Loan (D) Liability

8. निम्न में से कौन एक और गैर-लाभकारी संस्था के लिए अदृश्य संपत्ति है

- (A) भवन (B) पेटेंट
(C) फर्नीचर (D) नकद

Which of the following is an intangible asset for an Not- for profit organisation?

- (A) Building (B) Patents
(C) Furniture (D) Cash

9. विनियोग पर प्राप्त आए है:

- (A) आय (B) संपत्ति
(C) व्यय (D) इनमें से कोई नहीं

Income received from an investment is a/an:

- (A) Income (B) Asset
(C) Expense (D) None of these

10. पूँजी कोष को जाना जाता है

- (A) संचय कोष (B) सामान्य कोष
(C) आकस्मिक कोष (D) ऋण कोष

The capital fund is also known as:

- (A) Reserve Fund (B) General Fund
(C) Contingency Fund (D) Loan Fund

11. चालू वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदे हैं

- (A) आय (B) संपत्ति
(C) दायित्व (D) उपरोक्त सभी

Subscriptions received in advance during the current year is:

- (A) Income (B) Asset
(C) Liability (D) All of the above

12. निम्नलिखित में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है?

- (A) विद्यालय (B) अस्पताल
(C) क्लब (D) साझेदारी फर्म

Which of the following is not a not-for profit organisation?

- (A) School (B) Hospital
(C) Club (D) Partnership Firm

13. लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती हैं

- (A) व्यापारिक खाता (B) लाभ-हानि खाता
(C) आय-व्यय खाता (D) आयगत खाता

Not for profit organisation prepare:

- (A) Trading A/C (B) Profit and Loss A/C
(C) Income and Expenditure A/C (D) Revenue A/C

14. साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है:

- (A) 6% (B) 4%
(C) 8% (D) 10%

Partner who have advanced loan to the firm receive interest:

- (A) 6% (B) 4%
(C) 8% (D) 10%

15. चालू खाता है

- (A) व्यक्तिगत खाता (B) वास्तविक खाता
(C) नाममात्र खाता (D) इनमें से कोई नहीं

Current Account is:

- (A) Personal A/C (B) Real A/C
(C) Nominal A/C (D) None of these

16. साझेदार के पूँजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है।

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (A) पूँजी पर ब्याज | (B) आहरण पर ब्याज |
| (C) आहरण | (D) हानि में हिस्सा |

The opening balance of Partner's Capital A/C is credited with :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (A) Interest on Capital | (B) Interest on Drawings |
| (C) Drawings | (D) Share in Loss |

17. साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (A) साझेदारों के पूँजी खाते | (B) लाभ- हानि खाते को |
| (C) आहरण खाते को | (D) इनमें से कोई नहीं |

The interest on partner drawing is debited to:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (A) Partner's Capital A/C | (B) Profit and Loss A/C |
| (C) Drawing A/C | (D) None of these |

18. निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील पूँजी में जोड़ा जाता है?

- | | |
|------------|-----------------|
| (A) लाभ | (B) हानि |
| (C) निकासी | (D) उपरोक्त सभी |

Which of the following is added to the fluctuating capital?

- | | |
|--------------|----------------------|
| (A) Profit | (B) Loss |
| (C) Drawings | (D) All of the above |

19. लाभ-हानि नियोजन खाता बनाया जाता है:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (A) संचय कोष बनाने के लिए | (B) शुद्ध लाभ निकालने के लिए |
| (C) विभाज्य लाभ निकालने के लिए | (D) इनमें से कोई नहीं |

Profit and Loss Appropriation A/C is prepared to:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (A) Create Reserve Fund | (B) Find out Net Profit |
| (C) Find out Divisible Profit | (D) None of these |

20. साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है:

- | | |
|--------------|----------|
| (A) विनियोजन | (B) लाभ |
| (C) प्रभार | (D) हानि |

Interest on advance given to the firm by partner is:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (A) An Appropriation | (B) A Gain |
| (C) A Charge | (D) None of these |

21. साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूँजी रखी जाती है

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (A) परिवर्तनशील आधार पर | (B) स्थाई आधार पर |
| (C) (A) तथा (B) दोनों | (D) इनमें से कोई नहीं |

Partner's Current Account is prepared when capital of partner is maintained under:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (A) Fluctuating Basis | (B) Fixed Basis |
| (C) Both (A) and (B) | (D) None of these |

22. विगत तीन वर्षों के लाभ हैं: ₹ 42,000, ₹ 39,000 तथा ₹ 45,000। औसत लाभों के दो वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा।

- | | |
|----------------|--------------|
| (A) ₹ 42,000 | (B) ₹ 84,000 |
| (C) ₹ 1,26,000 | (D) ₹ 36,000 |

The profit of last three years are ₹ 42,000, ₹ 39,000 and ₹ 45,000 value of goodwill at two years purchases of the average profit will be:

- | | |
|----------------|--------------|
| (A) ₹ 42,000 | (B) ₹ 84,000 |
| (C) ₹ 1,26,000 | (D) ₹ 36,000 |

23. ख्याति की गणना की जाती है जब

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (A) साझेदार फर्म में प्रवेश करता है | (B) साझेदार अवकाश ग्रहण करता है |
| (C) साझेदार की मृत्यु हो जाती है | (D) इनमें से सभी |

Goodwill is valued when:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| (A) New Partner enters in the firm | (B) Partner retires |
|------------------------------------|---------------------|

- (C) Partner dies (D) All of these

24. एक व्यवसाय में विनियोजित पूँजी ₹1,50,000; लाभ ₹50,000 और सामान्य लाभ की दर 20%। पूँजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी:

- (A) ₹2,00,000 (B) ₹1,50,000
(C) ₹3,00,000 (D) ₹1,00,000

Capital employed in a business is ₹ 1,50,000; profit ₹ 50,000 and the normal rate of profit is 20%. The amount of goodwill as per capitalisation method will be:

- (A) ₹ 2,00,000 (B) ₹ 1,50,000
(C) ₹ 3,00,000 (D) ₹ 1,00,000

25. ख्याति की उत्पत्ति होती है

- (A) व्यवसाय से (B) उत्पाद से
(C) स्वामी से (D) इनमें से कोई नहीं

Goodwill emerges out of :

- (A) Business (B) Product
(C) Owner (D) None of these

26. व्यवसाय का औसत लाभ ₹30,000, क्रय वर्ष 2, तो ख्याति होगी:

- (A) ₹15,000 (B) ₹80,000
(C) ₹60,000 (D) इनमें से कोई नहीं

Average profit of business is ₹ 30,000, purchase year 2, goodwill will be:

- (A) ₹15,000 (B) ₹80,000
(C) ₹60,000 (D) None of these

27. साझेदारी समझौते में परिवर्तन से:

- (A) साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं
(B) साझेदारी का अंत हो जाता है
(C) साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है

(D) इनमें से कोई नहीं

Change in the partnership agreement

- (A) Change the Relationship among the partners
- (B) Result in the end of Partnership
- (C) Dissolves the Partnership
- (D) None of these

28. लाभ-प्राप्ति अनुपात:

- (A) नया अनुपात – पुराना अनुपात
- (B) पुराना अनुपात – त्याग अनुपात
- (C) नया अनुपात – त्याग अनुपात
- (D) पुराना अनुपात – नया अनुपात

Gaining Ratio:

- (A) New Ratio – Old Ratio
- (B) Old Ratio – Sacrificing Ratio
- (C) New Ratio – Sacrificing Ratio
- (D) Old Ratio – New Ratio

29. पुर्नमूल्यांकन खाता है:

- (A) व्यक्तिगत खाता
- (B) वास्तविक खाता
- (C) नाममात्र खाता
- (D) इनमें से कोई नहीं

Revaluation Account is a:

- (A) Personal A/C
- (B) Real A/C
- (C) Nominal A/C
- (D) None of these

30. साझेदारी के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाये गए संचय हस्तांतरित करेंगे:

- (A) सभी साझेदारों की पूँजी खाते में
- (B) नए साझेदारों के पूँजी खाते में
- (C) पुराने साझेदारों की पूँजी खाते में
- (D) उपरोक्त सभी

At the time of admission of a partner, General Reserve appearing in the old balance sheet is transferred to:

- (A) All Partner's Capital A/C (B) New Partner's Capital A/C
(C) Old Partner's Capital A/C (D) All of the above

31. पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं

- (A) पुराने साझेदार (B) नए साझेदार
(C) सभी साझेदार (D) केवल दो साझेदार

Profit or loss on revaluation is bear by:

- (A) Old Partner (B) New Partner
(C) All Partners (D) Only two Partners

32. A और B साझेदार हैं। C को $\frac{1}{5}$ भाग में शामिल किया जाता है। C अपने भाग के लिए ₹ 1,20,000 पूँजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है

- (A) ₹1,00,000 (B) ₹4,00,000
(C) ₹1,20,000 (D) ₹6,00,000

A and B are partners. C is admitted with $\frac{1}{5}$ shares. C brings ₹1,20,000 as his share towards capitals. The total net worth of the firm is:

- (A) ₹1,00,000 (B) ₹4,00,000
(C) ₹1,20,000 (D) ₹6,00,000

33. किसी नए साझेदार प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा?

- (A) पुनर्मूल्यांकन खाता (B) संपत्ति खाता
(C) पुराने साझेदारों को खाता (D) नए साझेदार का खाता

On the Admission of a new partner, increase in the value of asset is debited to which account?

- (A) Revaluation Account (B) Asset Account
(C) Old Partners Capital Account (D) New Partner Account

34. A, B और C एक फर्म में साझेदार है यदि D नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो

- (A) पुरानी फर्म का विघटन होगा
- (B) पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा
- (C) पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा
- (D) इनमें से कोई नहीं

A, B and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, then

- (A) Old firm is dissolved
- (B) Old firm and old partnership are dissolved
- (C) Old partnership is reconstituted
- (D) None of these

35. पाने वाला साझेदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात:

- (A) बढ़ता है
- (B) घटता है
- (C) बराबर रहता है
- (D) (A) और (C) दोनों

Profit and loss sharing ratio of receiving partner:

- (A) Increases
- (B) Decreases
- (C) Remains Equal
- (D) Both (A) and (B)

36. साझेदार के पूँजी खातों को क्रेडिट किया जाता है

- (A) पूँजी पर ब्याज से
- (B) आहरण पर ब्याज से
- (C) आहरण से
- (D) हानि में हिस्सा से

The Partner's Capital Account is credited with:

- (A) Interest on capital
- (B) Interest on drawings
- (C) Drawings
- (D) Share in Loss

37. त्याग अनुपात निकाला जाता है

- (A) साझेदार की मृत्यु पर
- (B) एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर

- (C) एक साझेदार के प्रवेश पर
(D) इनमें से कोई नहीं

Sacrificing ratio is ascertained at the time of :

- (A) Death of a partner (B) Retirement of a partner
(C) Admission of a partner (D) None of these

38. स्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है

- (A) व्यय (B) ह्रास
(C) लाभ (D) इनमें से कोई नहीं

Decrease in the value of fixed asset is known as:

- (A) Expense (B) Depreciation
(C) Profit (D) None of these

39. एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय, सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है:

- (A) पॉलिसी राशि+बोनस राशि (B) समर्पन मूल्य
(C) पॉलिसी राशि (D) उपर्युक्त सभी

At the time of retirement of a partner, firm gets from the insurance company against Joint Life Policy taken jointly for all the partners:

- (A) Policy Amount+ Bonus Amount (B) Surrender Value
(C) Policy Amount (D) All of the above

40. यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है:

- (A) ऋण खाते में (B) पूँजी खाते में
(C) बैंक खाते में (D) उचन्त खाते में

If retiring partner is not paid in full amount due to his retirement then balance is transferred to:

- (A) Loan A/C (B) Capital A/C
(C) Bank A/C (D) Suspense A/C

41. फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बाँटी जाती है:

- (A) प्रारंभिक पूँजी अनुपात में (B) अंतिम पूँजी अनुपात में
(C) पुराने लाभ—विभाजन अनुपात में (D) नए लाभ—विभाजन अनुपात में

Joint Life Policy amount received by a firm is distributed in:

- (A) Opening Capital Ratio (B) Closing Capital Ratio
(C) Old Profit sharing Ratio (D) New Profit sharing Ratio

42. किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के लाभ को किसके पूँजी खाते में जमा किया जाता है?

- (A) मृतक साझेदार के (B) सभी साझेदारों के
(C) बाकी साझेदारों के (D) मात्रा दो साझेदारों के

On the death of a partner the profit on revaluation is transferred to capital A/C of:

- (A) Deceased partner (B) All partners
(C) Remaining partners (D) Only two partners

43. मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा

- (A) 5% वार्षिक (B) 6% वार्षिक
(C) 7% वार्षिक (D) 8% वार्षिक

The executor of deceased partner will be paid interest on the amount due from the date of death of the partner at:

- (A) 5% p.a (B) 6% p.a
(C) 7% p.a (D) 8% p.a

44. यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो तो:

- (A) भुगतान नहीं होगा (B) पूर्ण भुगतान होगा

- (C) आंशिक भुगतान होगा (D) इनमें से कोई नहीं

If at the time of dissolution nothing is said about assets, then

- (A) Never paid (B) Fully paid
(C) Partly paid (D) None of these

45. आर्थिक चिट्ठे का शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है:

- (A) वसूली खाते में (B) रोकड़ खाते में
(C) पूँजी खाते में (D) पुर्नमूल्यांकन खाते में

Cash balance in a balance sheet is shown on dissolution of a firm in:

- (A) Realisation A/C (B) Cash A/C
(C) Capital A/C (D) Revaluation A/C

46. फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं

- (A) वसूली व्यय (B) कानूनी व्यय
(C) आयगत व्यय (D) पूँजीगत व्यय

Expenses on dissolution of firm is called:

- (A) Realisation Expense (B) Legal Expense
(C) Revenue Expense (D) Capital Expenditure

47. फर्म के विघटन के समय साझेदारों की पूँजी खातों की क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है:

- (A) साझेदारों को (B) फर्म को
(C) पत्नी को (D) इनमें से कोई नहीं

Payment of credit balance of Partner's Capital Account at the time of dissolution of a firm is made to :

- (A) Partners (B) Firm
(C) Wife (D) None of these

48. साझेदारों का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है?

- (A) अनिवार्य समापन (B) संयोग समापन
(C) न्यायालय द्वारा समापन (D) इनमें से कोई नहीं

Insolvency of a partner is which type of dissolution?

- (A) Compulsory dissolution (B) Dissolution by incidence
(C) Dissolution by court (D) None of these

49. वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में बाँटा जाता है:

- (A) बराबर अनुपात में (B) पूँजी अनुपात में
(C) लाभ-हानि अनुपात में (D) इनमें से कोई नहीं

The profit and loss of realisation account is shared by partners in:

- (A) Equal profit ratio (B) In capital ratio
(C) Profit and loss ratio (D) None of these

50. वसूली खाता है

- (A) व्यक्तिगत खाता (B) नाममात्र खाता
(C) वास्तविक खाता (D) उचंति खाता

Realisation Account is a:

- (A) Personal A/C (B) Nominal A/C
(C) Real A/C (D) Suspense A/C

51. कंपनी का उदाहरण है:

- (A) राहुल ब्रदर्स (B) भारत एंड संस
(C) टाटा मोटर्स (D) दिल्ली विश्वविद्यालय

Example of a company is:

- (A) Rahul Brothers (B) Bharat & Sons
(C) Tata Motors (D) Delhi University

52. अंशों के निर्गमन से पूर्व कौन-सा विवरण जारी किया जाता है?

- (A) प्रविवरण (B) पार्षद अंतर्नियम

- (C) पार्षद सीमा नियम (D) इनमें से सभी

Which statement is issued before the issue of shares?

- (A) Prospectus (B) Article of Association
(C) Memorandum of Association (D) All of these

53. अधिकार अंश वे है जिन्हें:

- (A) कंपनी के निदेशकों को उनकी सेवा के बदले निर्गमित किया जाता है
(B) कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है
(C) कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवा के बदले निर्गमित किया जाता है
(D) संपत्ति खरीदने के लिए विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है

Right shares are those shares which are :

- (A) issued to the director of the company
(B) issued to the existing shareholders of the company
(C) issued to promoters in consideration of their services
(D) issued to the vendors for purchasing assets

54. एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है:

- (A) कटौती पर (B) अधिमूल्य पर
(C) सममूल्य पर (D) अंकित मूल्य पर

A new company cannot issue its shares at :

- (A) Discount (B) Premium
(C) Par (D) Face value

55. अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है

- (A) चुकता पूँजी (B) अधिकृत पूँजी
(C) स्थाई संपत्ति (D) आरक्षित पूँजी

Forfeiture of shares result in the reduction of :

- (A) Paid-Up Capital (B) Authorised Capital
(C) Fixed Asset (D) Reserve Capital

56. अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है:

- (A) 6% प्रतिवर्ष (B) 10% प्रतिवर्ष
(C) 5% प्रतिवर्ष (D) 12% प्रतिवर्ष

Interest on calls-in-arrear can be charged maximum at:

- (A) 6% p.a (B) 10% p.a
(C) 5% p.a (D) 12 % p.a

57. एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है:

- (A) 7 (B) 200
(C) 50 (D) कोई सीमा नहीं

Maximum number of members in a private company is:

- (A) 7 (B) 200
(C) 50 (D) No limit

58. अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है:

- (A) बोनस अंशों के निर्गमन के लिए (B) लाभ के वितरण के लिए
(C) ऋण चुकाने के लिए (D) इनमें से कोई नहीं

Premium on issue of shares can be used for:

- (A) Issue of bonus shares (B) Distribution of profit
(C) Payment of loan (D) None of these

59. यदि ₹ 10 वाला अंश जिस पर ₹ 8 याचित है और ₹ 6 दत्त है, जब्त कर लिया जाता है, तो अंश पूँजी खाता को डेबिट किया जाना चाहिए:

- (A) ₹ 8 से (B) ₹ 10 से
(C) ₹ 6 से (D) ₹ 2 से

If a share of ₹ 10 on which ₹ 8 has been called and ₹ 6 is paid, forfeited, then the share capital account should be debited with:

- (A) ₹8 (B) ₹10
(C) ₹6 (D) ₹2

60. भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिह्न बनाया जाता है

- (A) अनुसूचित III भाग II (B) अनुसूची III भाग I
(C) अनुसूची VI भाग II (D) अनुसूची VI भाग I

According to the Indian Companies Act, 2013 Balance sheet of a company is prepared as per:

- (A) Part- II of Schedule III (B) Part- I of Schedule III
(C) Part- II of Schedule VI (D) Part- I of Schedule VI

61. सेबी के अनुसार, न्यूनतम अभिदान अंशों के आवंटन के पहले निर्गमित अंशों का कितना प्रतिशत अवश्य होना चाहिए?

- (A) 100 % (B) 90%
(C) 25% (D) 50%

According to the SEBI, minimum subscription must be at least how much percent of shares issued before allotment of shares:

- (A) 100 % (B) 90%
(C) (D) 25% (E) 50%

62. अंशों का निर्गमन किया जा सकता है:

- (A) सममूल्य पर (B) अधिमूल्य पर
(C) बट्टे पर (D) उपरोक्त सभी

Shares may be issued at

- (A) Par value (B) Premium
(C) A discount (D) All of the above

63. ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है

- (A) प्रतिभूति प्रीमियम संचयन से घटाकर
- (B) चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में
- (C) लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में
- (D) वसूली खाता में

Discount or loss on issue of debentures is shown as/in:

- (A) After deduction from Securities Premium Reserve
- (B) Asset side of Balance sheet
- (C) Cr. side of P & L A/C
- (D) Realisation A/C

64. ऋणपत्रधारी प्राप्त करते हैं

- | | |
|------------|----------|
| (A) लाभांश | (B) लाभ |
| (C) ब्याज | (D) बोनस |

Debenture holder gets:

- | | |
|--------------|------------|
| (A) Dividend | (B) Profit |
| (C) Interest | (D) Bonus |

65. कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन है:

- | | |
|-------------------|-------------|
| (A) आयगत प्राप्ति | (B) लाभ |
| (C) पूँजीगत लाभ | (D) संपत्ति |

Premium on issue of debenture for a company is a:

- | | |
|---------------------|------------|
| (A) Revenue Receipt | (B) Profit |
| (C) Capital Gain | (D) Asset |

66. ऋणपत्र की विशेषता है:

- | | |
|-------------------|------------------|
| (A) निश्चित ब्याज | (B) दीर्घकालीन |
| (C) शोधन | (D) इनमें से सभी |

Characteristic(s) of debenture is/are:

- (A) Fixed interest (B) Long term
 (C) Redemption (D) All of these
67. ऋणपत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं, कहे जाते हैं

- (A) पंजीकृत ऋणपत्र (B) प्रथम ऋणपत्र
 (C) वाहक ऋणपत्र (D) इनमें से कोई नहीं

Debentures which are transferred by merely delivery is called:

- (A) Registered Debenture (B) First Debenture
 (C) Bearer Debenture (D) None of these

68. जिन ऋणपत्र के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे चाहें तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋणपत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे ऋणपत्रों को कहते हैं:

- (A) शोध्य ऋणपत्र (B) अशोध्य ऋणपत्र
 (C) परिवर्तनशील ऋणपत्र (D) वाहक ऋणपत्र

The holder of debenture who have the right to convert their debentures into shares after a specific period as per the terms at their option, such as debentures are called :-

- (A) Redeemable Debentures (B) Irredeemable Debentures
 (C) Convertible Debentures (D) Bearer Debentures

69. ऋणपत्रों की निर्गमन का उद्देश्य होता है:

- (A) नई परियोजनाओं में निवेश (B) संयंत्र की खरीदारी
 (C) एकीकरण (D) इनमें से सभी

The objective(s) of issue of debentures is/are:

- (A) Investment in a new project (B) Purchase of machinery
 (C) Integration (D) All of these

70. स्वयं के ऋणपत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है

- (A) आयगत लाभ (B) पूँजीगत लाभ

- (C) संचालन लाभ (D) व्यापारिक लाभ

Profit on cancellation of own debenture is:

- (A) Revenue profit (B) Capital profit
(C) Operating profit (D) Trading profit

71. शोधन कोष विनियोग खाता है

- (A) आय (B) व्यय
(C) संपत्ति (D) दायित्व

Sinking Fund Investment A/C is an:

- (A) Income (B) Expenditure
(C) Asset (D) Liability

72. एक कंपनी प्रत्येक ₹100 वाले 1000, 12% ऋणपत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया। इसमें 12% क्या दर्शाता है?

- (A) लाभांश की दर (B) कर की दर
(C) ब्याज की दर (D) इनमें से कोई नहीं

A company issued 1,000 12% debenture of ₹ 100 each at 10% premium.

What does 12% show in it?

- (A) Rate of dividend (B) Rate of tax
(C) Rate of interest (D) None of these

73. ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है ?

- (A) पूँजी संचय खाता (B) सिंकिंग फंड खाता
(C) सामान्य संचय खाता (D) लाभ-हानि खाता

Profit on redemption of debenture is transferred to which account?

- (A) Capital Reserve A/C (B) Sinking Fund A/C
(C) General Reserve A/C (D) Profit & Loss A/C

74. कंपनी नियम, 2014 के अनुसार शोधन के पूर्ण ऋणपत्रों की राशि का कितना प्रतिशत से ऋण-पत्रों शोधन कोष का निर्माण करना होगा?

- (A) 50% (B) 25%
(C) 70% (D) 100%

According to company Rule, 2014 by which percent a company will have to create Debenture Redemption Reserve of the amount of the debenture to be redeemed?

- (A) 50% (B) 25%
(C) 70% (D) 100%

75. ऋणपत्रों की शोधन हेतु वित्त का स्रोत है

- (A) लाभ (B) पूँजी
(C) नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि (D) इनमें से सभी

Source(s) of finance for the redemption of debentures is/are:

- (A) Profit (B) Capital
(C) Amount received from the issue of fresh debenture (D) All of these
76. साधारणतया कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है

- (A) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन (B) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन
(C) लेखांकन वर्ष के पूरा होने पर (D) उपरोक्त सभी

Generally Annual Report of a company is published:

- (A) At first day of financial year
(B) On the last day of financial year
(C) On the completion of accounting year
(D) All of the above

77. चालू संपत्ति में कौन मद शामिल होता है?

- (A) पेटेंट (B) विनियोग
(C) स्कंध (D) मशीन

Which item is included in current asset?

- | | |
|------------|----------------|
| (A) Patent | (B) Investment |
| (C) Stock | (D) Machinery |

78. वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (A) मौद्रिक सूचना | (B) गुणात्मक सूचना |
| (C) अमौद्रिक सूचना | (D) इनमें से सभी |

Finance statement disclose(s):

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (A) Monetary Information | (B) Qualitative information |
| (C) Non-monetary information | (D) All of these |

79. सामान्य संचय को आर्थिक चिह्न में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (A) विविध व्यय | (B) अंश पूँजी |
| (C) संचय एवं अधिक्त्य | (D) गैर-चालू संपत्ति |

Under which heading of Balance sheet General Reserve is shown:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (A) Miscellaneous Expenditure | (B) Share Capital |
| (C) Reserve & Surplus | (D) Non-current asset |

80. वह संचय जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और जो आगम के विरुद्ध प्रभार होता है, कहलाता है

- | | |
|----------------|------------------|
| (A) पूँजी संचय | (B) सामान्य संचय |
| (C) गुप्त संचय | (D) विशिष्ट संचय |

The reserve which is created for a particular purpose and which is a charge against revenue is called:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (A) Capital Reserve | (B) General Reserve |
| (C) Secret Reserve | (D) Specific Reserve |

81. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तैयार करना अनिवार्य नहीं है?

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (A) लाभ-हानि विवरण | (B) स्थिति-विवरण |
| (C) अंकेषकों की रिपोर्ट | (D) कोष प्रवाह विवरण |

Which of the following is not required to be prepared under the Companies Act?

- (A) Statement of profit and loss (B) Balance sheet
(C) Auditor's Report (D) Fund Flow statement

82. आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रस्तुत करता है:

- (A) एक विशेष अवधि पर (B) विशेष अवधि के दौरान
(C) एक अवधि के लिए (D) इनमें से सभी

Balance sheet provides information about the financial position of the firm:

- (A) At a particular period of time (B) During special period
(C) For a period of time (D) All of these

83. सम-विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहाँ:

- (A) कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो
(B) कुल लागत कुल बिक्री से कम हो
(C) कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो
(D) कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो

Break-even-point refers to that point where:

- (A) Total cost are more than the total sales
(B) Total cost are less than the total sales
(C) Total cost are half of the total sales
(D) Total cost are equal to total sales

84. वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है

- (A) आलोचना एवं विश्लेषण (B) तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन
(C) निष्कर्ष निकालना (D) इनमें से सभी

Interpretation of financial statement includes:

- (A) Criticism and analysis (B) Comparison and trend study
(C) Drawing conclusion (D) All of these

85. आय विवरण क्या दर्शाता है?

- (A) खातों के पुस्तकों की शुद्धता (B) एक निश्चित अवधि का लाभ अथवा हानि
(C) रोकड़ बही का शेष (D) इनमें से कोई नहीं

What is shown by the Income statement?

- (A) Accuracy of books of accounts (B) Profit and loss for a certain period
(C) Balance of cash book (D) None of these

86. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है

- (A) व्यापारिक खाता (B) लाभ-हानि विवरण
(C) आर्थिक चिट्ठा (D) उपरोक्त सभी

Analysis of financial statement involves:

- (A) Trading A/C (B) Profit and loss statement
(C) Balance Sheet (D) All of the above

87. क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है:

- (A) गतिशील विश्लेषण (B) संरचनात्मक विश्लेषण
(C) स्थैतिक विश्लेषण (D) इनमें से कोई नहीं

Horizontal analysis is also known as:

- (A) Dynamic Analysis (B) Structural Analysis
(C) Static Analysis (D) None of these

88. एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों की विश्लेषण का उदाहरण है:

- (A) बाह्य विश्लेषण का (B) आंतरिक विश्लेषण का
(C) लंबवत् विश्लेषण का (D) क्षैतिज विश्लेषण का

The analysis of financial statement by a shareholder is an example of :

- (A) External Analysis (B) Internal Analysis
(C) Vertical Analysis (D) Horizontal Analysis

89. यदि एक फर्म की कुल संपत्तियाँ ₹10,00,000 हैं और गैर चालू संपत्तियाँ

₹6,00,000 हैं तो चालू संपत्तियाँ कुल संपत्तियों का कितना प्रतिशत होंगी?

- (A) 60% (B) 50%
(C) 40% (D) 80%

If total asset of a firm are ₹10,00,000 and its non-current assets are ₹6,00,000, what will be the percentage of non-current assets to the total assets?

- (A) 60% (B) 50%
(C) 40% (D) 80%

90. तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण प्रक्रिया किस विवरण के मदों के बीच तुलना को दर्शाती है?

- (A) आर्थिक चिह्न (B) लाभ-हानि विवरण
(C) (A) तथा (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Comparative financial analysis process shows the comparison between the items of which statement?

- (A) Balance sheet (B) Profit and Loss statement
(C) Both (A) and (B) (D) None of these

91. कार्यशील पूँजी है

- (A) रोकड़ तथा बैंक शेष
(B) चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में अंतर
(C) बैंक से ली गई उधारी
(D) चालू संपत्तियों एवं स्थाई संपत्तियों में अंतर

Working capital is the:

- (A) Cash and bank balance
- (B) Difference between current assets and current liabilities
- (C) Capital borrowed from bank
- (D) Difference between current asset and fixed assets

92. निम्न में से कौन गैर संचालन व्यय है?

- (A) किराया
- (B) बिक्री व्यय
- (C) मजदूरी
- (D) मशीनरी की बिक्री पर हानि

Which of the following is non-operating expense?

- (A) Rent
- (B) Selling expense
- (C) Wages
- (D) Loss on sale of machinery

93. लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है:

- (A) साधारण अनुपात में
- (B) प्रतिशत में
- (C) गुना में
- (D) इनमें से कोई नहीं

Profitability ratios are generally expressed in :

- (A) Simple Ratio
- (B) Percentage
- (C) Times
- (D) None of these

94. स्थाई संपत्तियों में शामिल होता है:

- (A) रोकड़
- (B) मशीनरी
- (C) देनदार
- (D) पूर्वदत्त व्यय

The term fixed asset includes:

- (A) Cash
- (B) Machinery
- (C) Debtors
- (D) Prepaid expense

95. निम्न में से कौन लेन-देन चालू अनुपात में सुधार लाएगा?

- (A) माल का नकद क्रय
- (B) ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त
- (C) लेनदार को भुगतान
- (D) माल का उधार क्रय

Which of the following transaction will improve the current ratio?

- (A) Purchase of goods for Cash
- (B) Cash received from customer
- (C) Payment of creditor
- (D) Credit purchase of goods

96. स्टॉक आवर्तन अनुपात के अंतर्गत आता है

- (A) तरलता अनुपात
- (B) लाभदायकता अनुपात
- (C) निष्पादन अनुपात
- (D) इनमें से कोई नहीं

Stock turnover ratio comes under:

- (A) Liquidity ratio
- (B) Profitability ratio
- (C) Performance ratio
- (D) None of these

97. रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना है

- (A) अनिवार्य
- (B) परामर्शात्मक
- (C) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित
- (D) इनमें से कोई नहीं

Preparation of Cash Flow Statement is:

- (A) Compulsory
- (B) Recommendatory
- (C) Required under the Companies Act
- (D) None of these

98. रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है

- (A) ए . एस.-3
- (B) ए . एस.-6
- (C) ए . एस.-9
- (D) ए . एस.-12

Cash Flow Statement is related to:

- (A) A.S.-3
- (B) A.S.-6
- (C) A.S.-9
- (D) A.S.12

99. कर्मचारियों को नकद भुगतान से रोकड़ प्रवाह है:

- (A) संचालन क्रियाओं
- (B) निवेशीय क्रियाओं
- (C) वित्तीय क्रियाओं
- (D) उपरोक्त सभी

Cash payment to employees is a cash flow from:

- (A) Operating Activities (B) Investing Activities
(C) Financing Activities (D) All of the above

100. प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है

- (A) रोकड़ का अंतर्वाह (B) रोकड़ का बहिर्वाह
(C) न तो (A) और न (B) (D) उपरोक्त सभी

Issue of shares in consideration of purchase of plant and machinery result into

- (A) Inflow of Cash (B) Out flow of Cash
(C) Neither (A) or nor (B) (D) All of the above

खण्ड-ब / SECTION-B

लघु उत्तरीय प्रश्न/ Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। $15 \times 2 = 30$

Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type. Answer any 15 questions.

Each question carries 2 marks. $15 \times 2 = 30$

- वसीयत क्या है ? 2
What is legacy?
- अलाभकारी संस्थाओं के चार उदाहरण दें। 2
Give four example of not-for-profit organisation.
- स्थायी पूँजी और परिवर्तनशील पूँजी में अंतर करें। 2
Distinguish between fixed capital and fluctuating capital.
- लाभ हानि समायोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले किन्हीं तीन मदों को लिखें। 2

Write any three items written in credit side of profit and loss appropriation account.

5. अधिलाभ क्या है ? 2
What is super profit?
6. साझेदारी फर्म की पुनर्गठन से क्या आशय है? 2
What is meant by reconstitution of partnership firm?
7. त्याग करने वाले साझेदार से क्या आशय है? 2
What is meant by sacrificing partner ?
8. संचित हानि से आप क्या समझते हैं? 2
What do you understand by accumulated loss?
9. सामान्य संचय क्या है ? 2
What is general reserve?
10. लाभ-प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है ? 2
Why gaining ratio is calculated?
11. समर्पित मूल्य क्या है ? 2
What is surrender value?
12. साझेदार की मृत्यु के समय विद्यमान ख्याति के लिए क्या रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी ? 2
What journal entry will be recorded for the available goodwill on the death of a partner?
13. साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बतायें । 2
Distinguish between dissolution of partnership and dissolution of firm.
14. वसूली खाता बनाने के दो उद्देश्य बतायें। 2
State two objectives of the preparation of Realisation Account.
15. अंशों के विभिन्न प्रकार बतायें । 2
State the different types of shares.
16. अंशों का पुनः निर्गमन क्या है? 2
What is re-issue of shares?

- 17.कंपनी की कोई चार विशेषता बतायें । 2
State any four characteristics of a company.
- 18.अशोध्य ऋणपत्र क्या है? 2
What is irredeemable debenture?
- 19.वाहक ऋणपत्र क्या है? 2
What is bearer debenture?
- 20.ऋणपत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन का क्या आशय है? 2
What is meant by Redemption of debenture by conversion?
- 21.वित्तीय विवरणों के चार तत्व के नाम बतायें । 2
Name four element of financial statement.
- 22.लाभ हानि विवरण क्या है? 2
What is the statement of profit and loss?
- 23.ऊपरी दिखावट कैसे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक सीमा है? 2
How is window dressing a limitation of financial statement analysis?
- 24.देनदार आवर्त अनुपात क्या है? 2
What is debtor turnover ratio?
- 25.प्रति अंश आय क्या है? 2
What is earning per share?
- 26.स्वामित्व अनुपात क्या होता है? 2
What is proprietary ratio?
- 27.आगम प्राप्तियों के चार उदाहरण दें । 2
Give four example of Revenue Receipt.
- 28.चूहा ख्याति का क्या अर्थ है? 2
What is the meaning of rat goodwill?
- 29.प्रस्तावित लाभांश से क्या समझते हैं? 2
What do you understand by proposed dividend?
- 30.रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है? 2
When does a cash flow arise?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें।
प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। $4 \times 5 = 20$

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type. Answer any 4 questions.

Each question carries 5 marks. $4 \times 5 = 20$

31. ख्याति क्या है? ख्याति की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। 5

What is goodwill? Explain the different methods of calculating goodwill.

32. फर्म के विघटन से क्या आशय है? फर्म के विघटन के समय की जाने वाली प्रविष्टियां दिखायें। 5

What do you mean by Dissolution of firm? Show the journal entries made at the time of dissolution of a firm.

33. ऋणपत्र का क्या आशय है? ऋणपत्र की मुख्य विशेषताएँ बतायें। 5

What is the meaning of debenture? State main features of debenture.

34. वित्तीय विवरण से क्या आशय है? इसकी सीमाओं का वर्णन करें। 5

What is meant by financial statement? Explain its limitations.

35. निम्न सूचनाओं से चन्दे से आय ज्ञात कीजिए और चिह्ना (स्थिति विवरण) में व्यवहार भी दिखाइए। 5

	₹
(i) वर्ष के दौरान प्राप्त चन्दे	20,000
(ii) प्रारंभिक बकाया चंदा	4,000
(iii) अंतिम बकाया चंदा	8,000
(iv) प्रारंभिक अग्रिम प्राप्त चंदा	6,000
(v) अंतिम अग्रिम प्राप्त चंदा	4,000

Find out income from subscription and also show the treatment in Balance sheet:

₹

(i) Subscription received during the year:	20,000
(ii) Subscription outstanding (Opening)	4,000
(iii) Subscription outstanding (Closing)	8,000
(iv) Subscription received in Advance (Opening)	6,000
(v) Subscription received in Advance (Closing)	4,000

36. Z लिमिटेड ने प्रशान्त द्वारा धारित ₹10 वाले पूर्णतः याचित 400 अंशों का, जिन्हें ₹ 2 प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किया गया था, हरण किया। प्रशान्त ने ₹ 3 आवेदन पर चुकाए। वह आवंटन पर ₹5 (अधिमूल्य सहित), ₹2.5 प्रथम याचना पर और ₹1.5 अंतिम याचना पर भुगतान नहीं कर सका । इन अंशों को श्री मुकेश को ₹9 प्रति अंश में पुनः निर्गमित किया गया। अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। 5

Z Ltd. Forfeited 400 shares of ₹ 10 each fully called up, held by Prashant, issued at a premium of ₹ 2 per share. Prashant Paid ₹ 3 on application. He could not pay ₹ 5 (including premium) on allotment, ₹ 2.5 on first call and ₹ 1.5 final call. These shares were re-issued to Shri Mukesh for ₹ 9 per shares. Given the journal entries for forfeiture and re-issue of shares.

37. निम्नलिखित सूचनाओं से स्वामित्व अनुपात की गणना करें। 5

	₹
(i) दीर्घकालीन ऋण	2,00,000
(ii) दीर्घकालीन आयोजन	1,00,000
(iii) चालू दायित्व	50,000
(iv) अचल परिसंपत्तियाँ	3,60,00
(v) चालू परिसंपत्तियाँ	90,000

From the following informations compute Proprietary Ratio:

	₹
(i) Long-term borrowing	2,00,000

(ii) Long-term provision	1,00,000
(iii) Current Liabilities	50,000
(iv) Non-current Assets	3,60,000
(v) Current Assets	90,000

38. स्थिति विवरण सामान्य निम्नलिखित उद्धरणों से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करें: 5

स्थिति—विवरण

(31-12-2022 तक का उद्धरण)

समता एवं देयताएँ	रकम (2021) ₹	रकम (2022) ₹	संपत्तियाँ	रकम (2021) ₹	रकम (2022) ₹
समता अंश पूँजी	2,00,000	3,00,000	ऋणपत्रों पर बट्टा	8,000	15,000
8% पूर्वाधिकार अंश	1,00,000	50,000			
6% ऋणपत्र	80,000	1,50,000			
प्रतिभूति अधिमूल्य (प्रीमियम)	—	10,000	अंशों पर अभिगोपन कमीशन	—	3,000

अतिरिक्त सूचनाएँ:

- समता अंशों को 2022 के अंत में 10 % अधिमूल्य (प्रीमियम) पर निर्गत किया गया।
- ऋणपत्रों को वर्ष के प्रारंभ में 10 % कटौती पर निर्गत किया गया।
- पूर्वाधिकार अंशों पर 8 % की दर से लाभांश दिया गया।
- ऋणपत्रों पर ब्याज दिया गया है।

From the following extract of Balance sheet, Find out cash flow from financing activities

Balance Sheet
(Extract as on 31-12-2022)

Equity & Liabilities	Amount (2021) ₹	Amount (2022) ₹	Assets	Amount (2021) ₹	Amount (2022) ₹
Equity Share Capital	2,00,000	3,00,000	Discount on Debentures	8,000	15,000
8% Preference Share	1,00,000	50,000	Underwriting commission on shares	—	3,000
6% Debenture	80,000	1,50,000			
Securities Premium	—	10,000			

Additional information:

- (i) Equity shares were issued at the end of 2022 at 10% premium.
- (ii) Debentures were issued at 10% discount in the beginning of the year.
- (iii) Preference shares were paid dividend @ 8%.
- (iv) Interest on debentures is paid.